

## भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी  
कोल) इंडिया लिमिटेड का एक अंग ( **जनसम्पर्क विभाग**  
कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद -826005



## Bharat Coking Coal Limited

A Miniratn Company  
(A subsidiary of Coal India Ltd)  
**Public Relation Department**  
KoylaBhawan, Koyla Nagar,  
Dhanbad, Jharkhand-826005

दिनांक: 14 अक्तूबर, 2015

### प्रेस विज्ञप्ति

#### बीसीसीएल को राजभाषा के क्षेत्र में दो सम्मान प्राप्त

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए राजभाषा सेवा संस्थान दिल्ली द्वारा गोवा में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और चिंतन शिविर में “राजभाषा विशिष्ट पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है। समारोह का आयोजन दिनांक 07-09 अक्तूबर , 2015 के दौरान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीसीसीएल की गृह पत्रिका ‘कोयला भारती’ को भी उत्कृष्ट विषय वस्तु और बेहतर छपाई के लिए “राजभाषा विशिष्ट पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उपसमिति के संयोजक डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी द्वारा प्रदान किया गया। बीसीसीएल की ओर से इस सम्मेलन में श्री श्याम नारायण सिंह , वरीय अनुवादक; श्री महेंद्र कुमार सिंह , वरीय निजी सहायक (राजभाषा) और श्री रघुनंदन राम , वरीय निजी सहायक (राजभाषा), पुटकी बलिहारी क्षेत्र सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में पूरे देश से लगभग 60 भारत सरकार के कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे।

उक्त पुरस्कार को राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर , 2015 को निदेशक (कार्मिक) महोदय के कक्ष में सौंपा गया। निदेशक (कार्मिक) महोदय ने राजभाषा विभाग को बधाई देते हुए राजभाषा के क्षेत्र में और अधिक बढ़ चढ़कर कार्य करने का आह्वान किया। मौके पर महाप्रबंधक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) श्री सोलोमन कुदादा , चिकित्सा सेवा प्रमुख डॉ. अलका उप्रेती , उप महाप्रबंधक (कल्याण) श्री एस सूद , श्री दीपक कुमार सिन्हा , उप प्रबन्धक (सचिवीय/राजभाषा) , श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), श्री उदयवीर सिंह, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), श्री यू एन तिवारी, वरीय निजी सहायक उपस्थित थे।

उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क)

## भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी  
कोल) इंडिया लिमिटेड का एक अंग (   
**जनसम्पर्क विभाग**

कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद -826005



## Bharat Coking Coal Limited

A Miniratn Company  
(A subsidiary of Coal India Ltd)

**Public Relation Department**

KoylaBhawan, Koyla Nagar,  
Dhanbad, Jharkhand-826005

